

Question Bank

B.Com Part- 1 (Honours) Paper- 2 Group D

Subject: Company Account

University Department of Commerce

And Management

B.R.A.B.U, Muzaffarpur

Multiple choice Question - (बहुविकल्पीय प्रश्न)

1. The final Accounts Include:- (अंतिम खाते में शामिल हैं)
 - a) Profit & Loss A/c (लाभ और हानि खाता)
 - b) Balance Sheet (बाहि खाता)
 - c) Both A & B (क और ख दोनों)
 - d) None of these (उपर्युक्त कोई नहीं)
2. As the per company each a joint stock company has to prepare :- (कंपनी कानून के अंतर्गत संयुक्त स्टॉक कंपनी को तैयार करना है)
 - a) Trading A/c (ट्रेडिंग खाता)
 - b) Manufacturing A/c (निर्माण खाता)
 - c) P/L Appropriation A/c (लाभ और हानि विनियोग खाता)
 - d) All of the above (उपर्युक्त सभी)
3. According to section 210 of company act 1956 explain the provision for final A/c under :- (कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 210 के तहत अंतिम खात के प्रावधान की व्याख्या करें।)
 - a) Schedule VI (Part II) (अनुसूची VI (भाग II))
 - b) Schedule VI (Part III) (अनुसूची VI (भाग III))
 - c) Schedule VI (Part VIII) (अनुसूची VI (भाग VIII))
 - d) Schedule VI (Part IX) (अनुसूची VI (भाग IX))
4. A joint stock company is required to prepare its final A/c :- (संयुक्त स्टॉक कंपनी को अपना अंतिम खाता तैयार करना आवश्यक है)
 - a) At the end of financial year (वित्तीय वर्ष के अंत में)
 - b) At the begining of calender year (कैलेंडर वर्ष की शुरुआत में)
 - c) Both A & B (क और ख दोनों)
 - d) All of these (उपर्युक्त सभी)
5. Trading A/c of joint stock company provide information about :- (एक संयुक्त स्टॉक कंपनी के ट्रेडिंग खाते के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं।)
 - a) Gross profit & loss (सकल लाभ और हानि)
 - b) Net profit or loss (शुद्ध लाभ और हानि)
 - c) profit & loss (लाभ और हानि)
 - d) None of these (उपर्युक्त में से कोई नहीं)
6. In joint stock company section 2012 describes/provides :- (संयुक्त स्टॉक कंपनी अनुभाग 2012 में वर्णन/प्रदान करता है:)
 - a) Deals with preparation & presentation of final A/c (अंतिम खाते की तैयारी और प्रस्तुति से संबंधित है)
 - b) Prescribe 'form' & 'contains' of Balancesheet & P/L A/c (बैलेंस शीट और पी/एल अकाउंट के फॉर्म और सामग्री को निर्धारित करें)
 - c) For disclosure of certain details in Balance Sheet. (बैलेंस शीट में कुछ विवरणों के प्रकटीकरण के लिए)
 - d) For the financial year of holding company & subsidiary (होलडिंग कंपनी और सहायक कंपनी के वित्तीय वर्ष के लिए)

15. In the case of a private company profit prior to receipt of certificate of incorporation is known as :-
(एक निजी कम्पनी की दशा में समामेलन प्रश्न-पत्र की प्राप्ति तिथि तक के लाभ को कहते हैं।)
- a) profit prior to incorporation (समामेलन के पूर्व का लाभ) b) profit after incorporation (समामेलन के बाद का लाभ)
- c) profit at incorporation (समामेलन के बीच का लाभ) d) All of these (उपर्युक्त सभी)
16. Profit prior incorporation are _____ profit. (समामेलन के पूर्व के लाभ होता है?)
- a) Revenue (आयगत) b) Capital (पूँजीगत)
- c) General (सामान्य) d) Dividend (लाभांश)
17. Insurance expenses are located on the basis of ? (बिमाव्य की किसके आधार पर विभजीन्य किया जाता है)
- a) Sales (बिक्री) b) purchase (खरीद)
- c) Time (समय) d) Capital (पूँजी)
18. For calculating pre incorporation profits administration expenses are apportioned in ? (समामेलन के पूर्व के लाभों को गन्ना करते समय संचालन व्ययों को किस आधार पर विभाजित किया जाता है ?)
- a) Sales Ratio (बिक्री अनुपात) b) Purchase Ratio (खरीद अनुपात)
- c) Capital Ratio (पूँजी अनुपात) d) Time Ratio (समय अनुपात)
19. Profit after the incorporation is transfer to :- (समामेलन के पश्चात् के लाभों को में हस्तान्तरित किया जात है)
- a) Capital Reserve (पूँजी संचिति) b) Statement of profit & loss (लाभ और हानि विवरण)
- c) Balance Sheet (बहिखाता) d) General Reserve (सामानय संचिति)
20. Preliminary expenses is located on a basis of :- (प्रारंभिकयय को किस अनुपात में विभाजित किया जाता है-)
- a) Sales (बिक्री) b) Purchase (खरीद)
- c) Manufacture (निर्माण) d) None of these (इनमें से कोई नहीं)
21. Profit prior to incorporation may be distributed as :- (समामेलन के पूर्व के अर्जित लाभों को किस रूप में वितरित किया जात है)
- a) As profit (लाभ के रूप में) b) As interest (ब्याज के रूप में)
- c) As dividend (लाभांश के रूप में) d) As capital (पूँजी के रूप में)
22. Office expenditure is allocated on the basis of :- (कार्यालय व्यय को किस अनुपात में विभाजित किया जाता है-)
- a) Sales (बिक्री) b) Purchase (खरीद)
- c) Bad debts (ऋण) d) Time (समय)
23. Gross profit & loss is allocated on the basis of :- (सकल लाभ और हानि का आधार है-)
- a) Turn-over Ratio (बिक्री के आधार पर) b) Direct expenses (प्रत्यक्ष व्ययों)
- b) Basis of Time (समय के आधार पर) d) All of these (उपर्युक्त सभी)
24. Fixed variable charges are :- (स्थायी व्यय जो बिक्री के मात्रा के साथ नहीं बदलते हैं :)
- a) Advertisement (विज्ञापन) b) Salary (प्रत्यक्ष व्ययों)
- c) Rent (किराया) d) Packaging (पैकिंग)

25. Underwriting commission salary of Managing director are the example of :- (अभिगोपन कमिसन, मैनेजिंग संचालक का वेतन किसके उदाहरण है -)
- Expenses belonging wholly to cost incorporation period (समामेलन के बाद का व्यय)
 - Expenses belonging to pre incorporation period. (समामेलन के पूर्व का व्यय)
 - Fixed Variable charges (स्थायी का व्यय)
 - Variable Charges (परिवर्तनशील व्यय)
26. Necessity of Ascertaining profit or loss prior to and after incorporation :- (समामेलन के पूर्व व पश्चात् के लाभ या हानि निकालने की आवस्यता होती है।)
- provides accurate profit & loss (शुद्ध लाभ या हानि के ज्ञान के लिए)
 - provides uses of accurate profit (शुद्ध लाभ के प्रयोग के ज्ञान के लिए)
 - Uses of accurate losses (शुद्ध हानि के प्रयोग के लिए)
 - All of these (इनमें से सभी)
27. According to companies act 2013 which section, the ability to contract any company is obtain only after getting the certificate of amalgamation and certificate of commencement of business :- (कम्पनी अधिनियम 2013 की किस धारा के अनुसार किसी भी कम्पनी को अनुबंध करने की योग्यता सामामेलन का प्रमाण पत्र एवं व्यवसाय चालू करने का प्रमाण पत्र मिलने के बाद ही प्राप्त होती है :-)
- Section 10 (धारा 10)
 - Section 11 (धारा 11)
 - Section 12 (धारा 12)
 - Section 13 (धारा 13)
28. Method of finding out profit or loss prior to or subsequent to incorporation are :- (समामेलन या कार्य प्रारंभ करने के पूर्व या बाद शुद्ध लाभ या हानि ज्ञात करने की विधि है)
- Time method (समय के अनुसार)
 - Turn over method (बिक्री के अनुसार)
 - Time & turn over method (बिक्री तथा समय के अनुसार)
 - All of the above (इनमें से कोई नहीं)
29. In which account the amount of loss is opened if their is no goodwill A/c in the book of company :- (कम्पनी की पुस्तकों में ख्याति खाता न हो तो हानि की रकम से कौन सी खाता खोल दिया जाता है)
- Balance Sheet (बही खाता)
 - Income & Expenditure A/c (आय और व्यय खाता)
 - Goodwill A/c (ख्याति खाता)
 - Reserve & Surplus A/c (आरक्षित और अधिशेष खाता)
30. In which account is the loss before amalgamation is debited :- (समामेलन के पूर्व के हानिको किस खाता में डेबिट किया जाता है-)
- Goodwill A/c (ख्याति खाता)
 - Suspense A/c (सन्देही खाता)
 - Profit & loss A/c (लाभ हानि खाता)
 - Receipt & payment A/c (प्राप्ति और भुगतान खाता)
31. What is declare as profit after amalgamation :- (समामेलन के पश्चात् वाले लाभ को क्या घोषित किया जाता है-)
- Divisible profit (विभाजन योग्य लाभ)
 - Dividend (लाभांश)
 - Interest (ब्याज)
 - Expenditure (खर्च)
32. Which of the following information is important for preparing the balance sheet after profit prior or post prior incorporation :- (समामेलन के पूर्व एवं पश्चात् की अवधि में बटवारा करने के बाद चिट्ठा बनाने के लिए निम्न में से कौन सा सूचना महत्व पूर्ण है।-)
- Capital Reserve (फ़ंडी संचय)
 - Cash Balance (रोकड़ बाकी)
 - Both (a) and (b) ('अ' और 'ब' दोनों)
 - None of these (इनमें से कोई नहीं)
33. Fixed distribution expenses are divided according to - (स्थायी वितरण व्यय को किसके अनुसार बाँटा जाता है-)

- a) Time (समय) b) Sales (बिक्री)
- c) purchase (खरीद) d) expenses (खर्च)
34. Variable distribution expenses are divided according to - (परिवर्तनशील वितरण व्यय को किसके अनुसार बाँटा जाता है-)
- a) Time (समय) b) Sales (बिक्री)
- c) Purchase (खरीद) d) expense (खर्च)
35. What happens to the bank account when the buying company issues shares to the share holders :-
(जब क्रेता कम्पनी विक्रेता को अंश निर्गमित करती है तो नगदी प्राप्त होने पर बैंक खाते में क्या किया जाता है-)
- a) Debit (डेबिट) b) credit (क्रेडिट)
- c) none of these (इनमें से कोई नहीं) d) (a) or (b) Both (उपर्युक्त 'अ' और 'ब' दोनों)
36. What happens to the capital account when the buying company issues shares to the sellers :-
(जब क्रेता कम्पनी विक्रेता को अंश निर्गमित करती है तो नगदी प्राप्त होने पर पूँजी खाते क्या होता है)
- a) Debit (डेबिट) b) credit (क्रेडिट)
- c) none of these (इनमें से कोई नहीं) d) Both (a) and (b) (उपर्युक्त 'अ' और 'ब' दोनों)
37. What does not earn until a company is incorporated and amalgamated :- (एक कम्पनी की जब स्थापना हो जाती है और इसका सम्मेलन नहीं होता है तब तक किसका अर्जन नहीं होता है -)
- a) Loss (हानि) b) Interest (ब्याज)
- c) Dividend (लामांश) d) Profit (लाभ)
38. Under which head is it shown in the liability side of the balance sheet of the company :- (कम्पनी के आर्थिक चिट्ठे के दायित्व के पत्र में किस शीर्षक के अन्तर्गत दिखाया जाता है?)
- a) Income & Expenditure A/c
(आय और व्यय खाता) b) Capital A/c
(पूँजीगत खाता)
- c) Reserve & Surplus
(आरक्षित और अधिशेष) d) Goodwill A/c
(ख्याति खाता)
39. Under which head of the assets side it escaped in the balance sheet ? (आर्थिक चिट्ठे में इसे सम्पत्ति पत्र के किस शीर्षक के अन्तर्गत रखा जाता है?)
- a) Divisible profit
(विभाजन योग्य लाभ) b) Miscellaneous Expenditure
(विविध व्यय)
- c) Reserve & Surplus
(आरक्षित और अधिशेष) d) Deferred Revenue
(अज्ञात व्यय)
40. What is the profit prior to after incorporation treated in suspense account ? (सम्मेलन के पूर्व के लाभ को सन्देही खाता में क्या किया जाता है -)
- a) Credit
(क्रेडिट) b) Debit
(डेबिट)
- c) deducted from Suspense A/c
(सन्देही खाते से घटाया जाता है) d) Added to suspense A/c
(सन्देही खाते में जोड़ा जाता है)
41. What is done in the statement of profit & loss of unearned profit of buying company :- (क्रेता कम्पनी के आयगत लाभ को हानि विवरण में क्या किया जाता है-)
- a) Deducted (घटाया) b) Added (जोड़ा जाता है)
- c) Transfer (हस्तान्तरित किया जाता है) d) None of these (इनमें से कोई नहीं)
42. Expenses are treated as before incorporation expenses :- (सम्मेलन से पूर्व वाली अवधि के माने जाते हैं-)

- a) Vendors Salary (विक्रेता का वेतन) b) discount (बट्टा)
- c) Rent (किराया) d) Interest on debentures (ऋण पत्रों पर ब्याज)
43. Any company assumes statutory existence after _____ ? (कोई कम्पनी के बाद वैधानिक अस्तित्व ग्रहण करती है)
- a) Incorporation (समामेलन) b) Certificate of Commencement (प्रमाण-पत्र)
- c) Registration (पंजीकरण) d) All of these (इनमें से सभी)
44. In what ration is the total profit for the year divided if it is 10 months after profit prior to in corporation ? (समामेलन के बाद का समय 10 माह है तो वर्ष के कुल लाभ को किस अनुपात में बाँट दिया जाता है।)
- a) 3:10 (3:10) b) 6:12 (6:12)
- c) 8:13 (8:13) c) 2:10 (2:10)
45. If the sales after profit prior to incorporation are 80,000 and the sales before profit prior to incorporation are 40,000 that what is the ratio of this ? (समामेलन के बाद कि बिक्री 80,000 है तो और पूर्व बिक्री 40,000 है तो इसे किस अनुपात में बाँटा जाता है।)
- a) 40,000 : 80,000 (40000 : 80000) b) 4 : 2 (4:2)
- c) 2 : 1 (2:1) d) all of these (इनमें से सभी)
46. The total profit for the year should be divided according to :- (वर्ष के कुल लाभ को किसके अनुसार विभाजित किया जाता है।)
- a) Time method (समय अनुसार) b) Turn over method (बिक्री के अनुसार)
- c) Time & turnover method (समय बिक्री के अनुसार) d) Company method (कम्पनी के अनुसार)
47. Profit Prior to incorporation are :- (समामेलन के पूर्व के अर्जित लाभ को कौन सा लाभ होता है)
- a) Revenue profit (आयगत लाभ) b) Capital profit (पूँजीगता लाभ)
- c) Gross profit (सकल लाभ) d) Dividend (लाभांश)
48. Loss is divided as :- (हानि को विभाजित किया जाता है)
- a) Time ratio (समय अनुपात में) b) sales ratio (बिक्री अनुपात में)
- c) general ratio (समान अनुपात में) d) None of these (इनमें से कोई नहीं)
49. Gross profit is divided as :- (सकल लाभ को विभाजित किया जाता है)
- a) Time ratio (समय अनुपात में) b) Sales ratio (बिक्री अनुपात में)
- c) General ratio (समान अनुपात में) d) None of these (इनमें से कोई नहीं)
50. Advertisement is divided as :- (विज्ञापन को विभाजित किया जाता है)
- a) Time ratio (समय अनुपात में) b) Sales ratio (बिक्री अनुपात में)
- c) General ratio (समान अनुपात में) d) none of these (इनमें से कोई नहीं)
51. As per As- 14 Purchase consideration will include the payments that are payable to whom:- (As-14 के अनुसार क्रय प्रतिफल में वे भुगतान शामिल होंगे जो निम्नलिखित में से किसी एक को देय है:-)
- a) Share holders (अंशधारियों) b) Share holders & debenture holder (अंशधारियों और ऋण-पत्रधारियों)
- c) Shareholders & creditors (अंशधारियों और लेनदारों) d) Debentureholders & creditors (ऋण-पत्रधारियों और लेनदारों)
52. Which method will be used to record amalgamation in the nature of merger in the books of transfer company ? (जब एकीकरण विलय की प्रकृति का है तो उसका लेखांकन हस्तान्तरी कम्पनी में किस विधि से किया जायेगा?)

- a) Pooling of Interest Method
(हितों का सूहीकरण)
- b) Purchase Method
(क्रय विधि)
- c) consolidated balance sheet Method
(संयुक्त चिट्ठा विधि)
- d) None of these
(उपर्युक्त में कोई नहीं)
53. To which account the difference between the purchase consideration and share capital of transferor company will be transferred under pooling of interests method? (हितों का समूहीकरण विधि में क्रय प्रतिफल और हस्तान्तरक कम्पनी की अंश पूँजी के अन्तर को किस खातों में हस्तान्तरित किया जायेगा?)
- a) Amalgamation on adjustment A/c
(एकीकरण संयोजन खाता)
- b) Goodwill or capital Reserve
(ख्याति अथवा पूँजी संचिति)
- c) G/R or P/L statement
(सामान्य संचिति अथवा लाभ-हानि विवरण)
- d) None of above
(उपर्युक्त में से कोई नहीं)
54. What will be recorded in the books of transferee company under purchase method? (क्रय विधि में हस्तान्तरी कम्पनी अपनी पुस्तकों में किसका लेख करेगी?)
- a) All assets and liabilities of transferor company
(हस्तान्तरक कम्पनी की सभी सम्पत्तियों व दायित्वों का)
- b) All assets, liabilities and reserves of transferor company
(हस्तान्तरक कम्पनी की सभी सम्पत्तियों, दायित्वों और संचयों का)
- c) Assets and liabilities acquired by transferee
(हस्तान्तरक कम्पनी की अधिग्रहीत सम्पत्तियों व दायित्वों का)
- d) Assets and liabilities acquired transferee company and statutory reserves
(हस्तान्तरक कम्पनी की अधिग्रहीत सम्पत्तियों व दायित्वों तथा वैधानिक संचयों का)
55. (एकीकरण संयोजन खातों को हस्तान्तरी कम्पनी की पुस्तकों में किसका लेखा करने के लिए खोला जाता है ?)
- a) Non-statutory reserve of transferor Co.
(हस्तान्तरक कम्पनी के गैर-वैधानिक संचयों)
- b) Statutory reserve of transferor Co.
(हस्तान्तरक कम्पनी के सभी संचयों)
- c) All reserves of transferor Co.
(हस्तान्तरक कम्पनी के सभी संचयों)
- d) Assets & liabilities acquired by transferee Co. & statutory reserves
(हस्तान्तरक कम्पनी की अधिग्रहीत सम्पत्तियों व दायित्वों तथा वैधानिक संचयों का)
56. Accounting for amalgamation of companies is done as per. (कम्पनी के एकीकरण से सम्बन्धित लेखांकन किया जाता है)
- a) As- 4 (As-4 के अनुसार)
- b) As- 10 (As-10 के अनुसार)
- c) As- 14 (As-14 के अनुसार)
- d) As- 20 (As-20 के अनुसार)
57. From when accounting for amalgamation is regulated by As- 14. (एकीकरण की लेखाविधि AS- 4 कब से संचालित होती है:-)
- a) 1930
- b) 1929
- c) 1995
- d) 1999
58. Which company is known under amalgamation, vendor company is called transferor company while purchasing company. (एकीकरण के अन्तर्गत विक्रेता कम्पनी को हस्तान्तरक कम्पनी तथा क्रेता कम्पनी को क्या कहा जाता है?)
- a) Transferee company (हस्तान्तरक कम्पनी)
- b) Public company (सार्वजनिक कम्पनी)
- c) Private company (निजी कम्पनी)
- d) One person company (एक व्यक्ति कम्पनी)
59. On what value the shares are valued, In case of amalgamation in nature of merger. (विलय की प्रकृति में एकीकरण में अंशों को किस मूल्य पर मूल्यांकित किया जाता है?)
- a) Called-up value (कॉल-अप मूल्य)
- b) Paid up value (चुकता मूल्य)
- c) Subscribe value (सदस्यता मूल्य)
- d) Market value (बाजार मूल्य)
60. On which price fraction of share are valued? (अंशों के खण्डों का मूल्यांकन किस मूल्य पर किया जाता है?)

- a) paid up value (चुकता मूल्य) b) market price (बाजार मूल्य)
c) called-up value (कॉल-अप मूल्य) d) subscribe value (सदस्यता मूल्य)
61. In case of amalgamation in nature of purchase the difference between purchase consideration and share capital of transferor company is transferred to :- (क्रय की प्रकृति के एकीकरण के क्रय प्रतिफल और हस्तान्तरक कम्पनी की अंश पूँजी की राशि के अंतर को हस्तान्तरित कर दिया जाता है)
a) Capital reserve (पूँजी संचय) b) goodwill (ख्याति)
c) Both a & b (अ और ब दोनों) d) None of these (इनमें से कोई नहीं)
62. Polling of interests method is used in case of amalgamation in the nature of :- (हितों का समूहीकरण विधि का प्रयोग किसकी प्रकृति के एकीकरण की स्थिति में किया जाता है)
a) merge (विलय) b) sales (बिक्री)
c) purchase (क्रय) d) goodwill (ख्याति)
63. Which method is used in case of amalgamation in the nature of purchase. (विधि को प्रयोग क्रय की प्रकृति की एकीकरण की स्थिति में किया जाता है क्यों?)
a) pooling of interest (हितों का समूहीकरण) b) purchase (क्रय)
c) merger (विलय) d) sales (बिक्री)
64. Under pooling of interest method assets and liabilities are recorded at their _____. (हितों का समूहीकरण विधि में सम्पत्ति और दायित्वों को उनके मूल्यों पर लिखा जाता है।)
a) Existing Book value (वर्तमान पुस्तकीय मूल्य) b) Fair Value (उचित मूल्य)
c) Purchase (क्रय) d) All of these (इनमें से सभी)
65. Under which method assets and liabilities are recorded at their fair values. (किस विधि में सम्पत्ति और दायित्वों को उचित मूल्यों पर लिखा जाता है।)
a) Merger (विलय) b) Goodwill (ख्याति)
c) Pooling of Interests (हितों का समूहीकरण) d) Purchase (क्रय)
66. Under which method, reserves & surplus of transferor company are shown in the financial statements of transferee company ? (किस विधि में हस्तान्तरक कम्पनी के लाभों और संचयों को हस्तान्तरी कम्पनी के वित्तीय विवरणों में दर्शाया जाता है।)
a) Merger (विलय) b) Goodwill (ख्याति)
c) Pooling of interest (हितों का समूहीकरण) d) Purchase (क्रय)
67. Under purchase method, the excess of purchase consideration over the share capital of transferor company is transferred to _____. (क्रय विधि में क्रय प्रतिफल के हस्तान्तरक कम्पनी के अंश पूँजी को आधिम्य को में हस्तान्तरित कर दिया जाता है।)
a) Capital reserve (पूँजी संचय) b) Goodwill (ख्याति)
c) Merger (विलय) d) Purchase (क्रय)
68. Which company do not affect inter-company transaction :- (किस कम्पनी का अन्तर-कम्पनी व्यवहारों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता ?)
a) Purchase (क्रय) b) Transferor (हस्तान्तरक)
c) Foreign (विदेशी) d) Transferor (हस्तान्तरक)
69. A/c to tradition approach, how many types companies are there ? (परम्परागत दृष्टिकोण से कम्पनी कितने प्रकार के होते हैं)
a) One (एक) b) Two (दो)
c) Three (तीन) d) Four (चार)

70. When a company buys another company under an agreement called :- (जब एक कम्पनी किसी समझौते के अन्तर्गत किसी दूसरी विद्यमान कम्पनी का क्रय किया जाता है तो उसे :-)
- a) Absorption (अन्तर्लयन) b) Reconstruction (पुनर्निर्माण)
c) Both a & b (उपर्युक्त दोनों) d) None of these (इनमें से कोई नहीं)
71. A state under which either two or more companies are joined so as to form a third entity are :- (वह स्थिति जिसके अन्तर्गत दो कम्पनियों आपस में मिलकर एक किसी तीसरी कम्पनी की स्थापना करे उसे)
- a) Amalgamation (एकीकरण) b) Absorption (संविलयन)
c) Reconstruction (पुनर्निर्माण) d) Alliances (संयोजन)
72. Advantages of Amalgamation are :- (एकीकरण के लाभ हैं:-)
- a) easy control (नियन्त्रण में सुविधा) b) Services of specialists (विशेषज्ञों की सेवाएं)
c) easy distribution (वितरण में सुविधा) d) all of these (उपर्युक्त सभी)
73. Disadvantages of Amalgamation are :- (एकीकरण के हानि हैं :-)
- a) easy distribution (वितरण में सुविधा) b) economy (मितव्ययिता)
c) easy control (नियन्त्रण में सुविधा) d) over capitalisation (अति-पूँजीकरण)
74. How many types of amalgamation are there according to As-14 ? (AS-14 के अनुसार एकीकरण के कितने प्रकार हैं)
- a) Four (चार) b) Six (छः)
c) Two (दो) d) Eight (आठ)
75. Technique of amalgamation are :- (एकीकरण के तकनिक हैं)
- a) Horizontal form (क्षैतिक स्वरूप) b) Purchase consideration (क्रय प्रतिफल)
c) Vertical form (लम्बित स्वरूप) d) Conglomerative form (पिण्डीय स्वरूप)
76. For transferring assets taken over by transferee company :- (हस्तान्तरी कम्पनी द्वारा ली गई सम्पत्तियों के हस्तान्तरण के लिए :-)
- a) Realisation A/c ----- Dr
To sundry Assets A/c b) Sundry Assets A/c ----- Dr
To realisation A/c
c) Both A & B (अ और ब दोनों) d) None of these (इनमें से कोई नहीं)
77. Necessary ledger A/c in the books of Transferor Co. (हस्तान्तरक की पुस्तकों में आवश्यक खाते हैं)
- a) 3 b) 2
c) 5 d) 6
78. The following reserves and funds are not mentioned in the balance sheet of transferee company are :- (निम्नांकित संचय एवं कोषों का उल्लेख हस्तांतरी कंपनी के चिट्ठे में नहीं किया जाता है।)
- a) General Reserve (सामान्य संचय) b) Insurance fund (बीमा कोष)
c) contingency fund (सांयोगिक कोष) d) All of these (इनमें से सभी)
79. The following are shown on the liability side in the balance sheet of transferee company :- (निम्नांकित कोषों को हस्तांतरी कंपनी के चिट्ठे में दायित्व पक्ष में दिखाया जाता है)
- a) General reserve (सामान्य संचय) b) Provident fund (भविष्य निधि)
c) Contingency fund (सांयोगिक कोष) d) All of these (बीमा कोष)
80. What is arises with the respect of amalgamation :- (एकीकरण के सम्बन्ध में क्या उत्पन्न होता है)

- a) General Reserve (सामान्य संचय) b) Capital Reserve (संचय पूँजी)
 c) Other Reserve (अन्य संचय) d) Provident Fund (भविष्य निधि)
81. Necessary Accounts in Transferee Company are :- (हस्तान्तरी कम्पनी में आवश्यक खाते होते हैं)
 a) three (तीन) b) four (चार)
 c) two (दो) d) five (पाँच)
82. How many policies are there for determination of purchase consideration ? (क्रय प्रतिफल के निर्धारण के कितने रितियाँ हैं)
 a) Two (दो) b) Three (तीन)
 c) Four (चार) d) Six (छः)
83. Methods of Accounting for Amalgamation :- (एकीकरण की लेखांक विधि है)
 a) Two (दो) b) Three (तीन)
 c) Four (चार) d) Six (छः)
84. Under which it is mandatory to have at least two working companies :- (किसके अन्तर्गत कम-से-कम दो कार्यरत कम्पनियों का होना अनिवार्य है)
 a) b)
 c) d) Amalgamation (एकीकरण)
85. All assets and liabilities are included in :- (समस्त समपत्तियाँ व देयताएँ शामिल हैं)
 a) Business (व्यवसाय) b) Share (अंश)
 c) Debenture (ऋणपत्र) d) All of these (इन सभी में)
86. Where is the accumulated profit transferred in the case of winding up of the company ? (कम्पनी के समापन की दशा में संचित लाभ को कहाँ हस्तान्तरित किया जाता है ?)
 a) Shareholders A/c (अंशधारियों के खाते में) b) Debentures holders A/c (ऋणधारियों के खाते में)
 c) General Reserve (समान संचय में) d) None of these (इनमें से कोई नहीं)
87. Accumulated profit includes :- (संचित लाभ में आते हैं)
 a) Capital reserve (पूँजी संचय) b) Sinking fund (सिंकिंग फण्ड)
 c) loan (ऋण) d) Both a & b (अ और ब दोनों)
88. Calculation of Purchase consideration are :- (क्रय प्रतिफल की गणना करने की विधियाँ हैं)
 a) lump sum payment method (एक मुश्त भुगतान विधि) b) Net payment method (शुद्ध भुगतान विधि)
 c) Both a & b (अ और ब दोनों) d) None of these (इनमें से कोई नहीं)
89. Accounting method for amalgamation :- (एकीकरण की लेखांकन विधियाँ हैं)
 a) 1 (एक) b) 2 (दो)
 c) 3 (तीन) d) 4 (चार)
90. Under this method, the shares can be settled by providing money for the differed share to the share holders. (इस विधि के अन्तर्गत अंशधारियों को खण्डित अंशों के लिए रोकड़, प्रदान कर अंशों का निपटारा किया जा सकता है)
 a) Pooling of Interest method b) By issuing fraction share certificate

(हितों का समूहीकरण विधि)

(खण्डित अंश प्रमाण—पत्र निर्गत कर)

c) By cash (रोकड़ द्वारा)

d) By Purchase Method (क्रय विधि द्वारा)

91. The following items and profits will not be include in the liability case :- (निम्नलिखित संचितियों, कोषों एवं लाभों को दायित्व में शामिल नहीं किया जायेगा।)

a) Loan (ऋण)

b) Share (अंश)

c) General Reserve (सामान संचय)

d) Purchase (क्रय)

92. Form of Amalgamation are :- (एकीकरण के स्वरूप हैं)

a) Horizontal form (क्षैतिक रूप)

b) Vertical form (लम्बित स्वरूप)

c) Conglomerative form (पिण्डीय स्वरूप)

d) All of these (उपर्युक्त सभी)

93. When the transferee company will continue the business of the transferee company :- (हस्तान्तरी कम्पनी कब हस्तान्तरक कम्पनी के व्यवसाय को चालू रखेगी)

a) After amalgamation
(एकीकरण के बाद)

b) Before amalgamation
(एकीकरण के पहले)

c) With amalgamation
(एकीकरण के साथ)

d) None of these
(इनमें से कोई नहीं)

94. Objectives of amalgamation are :- (एकीकरण के उद्देश्य हैं)

a) Cover-capitalisation (अति-पूँजीकरण)

b) Monopoly situation (एकाधिकारी स्थिति)

c) Industrial dispute (औद्योगिक कलह)

d) Economy (मितव्ययिता)

95. Important terms defined in As- 14 is. (लेखांकन मानक- 14 में परिभाषित महत्वपूर्ण शब्द है।)

a) Amalgamation (एकीकरण)

b) Reserve (संचय)

c) Fair value (उचित मूल्य)

d) All of these (उपर्युक्त सभी)

96. Important terms defined in As- 14 are : (लेखांकन मानक 14 में परिभाषित महत्वपूर्ण शब्द)

a) 4

b) 6

c) 7

d) 9

97. Under which As amalgamation falls :- (किस लेखांक मानक के अन्तर्गत एकीकरण आता)

a) As- 14

b) As- 16

c) As- 21

d) As- 24

98. An existing company purchase the business of another existing company . (एक विद्यमान कम्पनी दूसरी विद्यमान कम्पनी के व्यवसाय का क्रय करती है)

a) Amalgamation (एकीकरण)

b) Reconstruction (पुननिर्माण)

c) Absorption (संविलयन)

d) All of these (उपर्युक्त सभी)

99. Today's era is :- (आज का युग है)

a) Competition (प्रतिस्पर्द्धा)

b) Modern (आधुनिक)

c) Traditional (परम्परागत)

d) All of these (उपर्युक्त सभी)

100. How many views are there of the meaning of the word amalgamation :- (एकीकरण शब्द का अर्थ के कितने दृष्टिकोण हैं)